

5623

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES



सत्यमेव जयते


पाँच सौ रुपये

Rs. 500


INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

A 623274



46
जिस प्रकार ही न्युन्यतम न्यायिक प्रमाण
काल 1908 को द्वारा
इस न्युन्यतम न्यायिक प्रमाण अतिनिष्ठ
इस न्युन्यतम न्यायिक प्रमाण अतिनिष्ठ
अज्ञान प्रमाण न्यायिक प्रमाण अतिनिष्ठ
अज्ञान प्रमाण न्यायिक प्रमाण अतिनिष्ठ



28/07/2016

साझेदारी विलेख

यह साझेदारी विलेख आज दिनांक 28 जुलाई 2016 ई0 को स्थान राँची में इस प्रकार सम्पन्न होता है।

प्रथम पक्ष का नाम एवं पता:- श्री गुप्तेश्वर सिंह पिता स्व0 बलिराज सिंह,
धर्म-हिन्दु, जाति-राजपुत, पेशा-व्यापार, निवास
स्थान ग्राम-गाड़ी, निकट खेलगांव मोड़, थाना-सदर,
जिला-राँची (झारखण्ड) पैन-AGRPS3624D

Handwritten signature and date 28/7/16

Handwritten notes on the right side: सानिका सिंह, 28/7/16, मसान, बालिन, मसान, बालिन, मसान, बालिन, मसान, बालिन

गुप्तेश्वर
28/7/16



...भारतीय नागरिक।

द्वितीय पक्ष का नाम एवं पता:- श्रीमती मनिषा सिंह पति श्री गुप्तेश्वर सिंह
धर्म-हिन्दु, जाति-राजपुत, पेशा-गृहणी, निवास स्थान
ग्राम-गाड़ी, निकट खेलगांव मोड़, थाना-सदर,
जिला-राँची (झारखण्ड) पैन-AQSPS9720M

...भारतीय नागरिक।

“प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के सन्दर्भ में उनके वारिसान समनुदेशित, नामित, प्रतिनिधि तथा प्रशासक भी सम्मिलित समझे जायेंगे, बशर्ते कि सन्दर्भ के विस्तृत अथवा अपवर्जित न हों।”

लेख्य प्रकार:- साझेदारी विलेख।

विदित हो कि प्रथम पक्ष जी.एस. कंस्ट्रक्शन के नाम से भवन निर्माण कार्य करते चले आ रहे हैं, जिसका निबंधित कार्यालय-राधा कम्पलेक्स, खेलगांव चौक, दीपाटोली, थाना-सदर, राँची में स्थित है।

यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष उक्त जी.एस. कंस्ट्रक्शन को सुचारु रूप से कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पक्ष को हिस्सेदार बनाना चाहते हैं तथा द्वितीय पक्ष भी जी.एस. कंस्ट्रक्शन के शर्तों एवं नियमों का पालन करते हुए कार्य निष्पादन के लिए सहमत हैं।

अतः यह साझेदारी विलेख उपरोक्त पक्षकारगण के बीच निम्नलिखित शर्तों पर निष्पादित होता है:-

1. यह कि दोनों पक्षगण जी.एस. कंस्ट्रक्शन के नाम से कार्य निष्पादन करेंगे।
2. यह कि यह साझेदारी विलेख झारखण्ड राज्य में जमीन क्रय-विक्रय तथा भवन निर्माण कार्य तथा फ्लैट क्रय-विक्रय एवं अन्य कार्य करने हेतु तत्काल प्रभावी है, जिसे दोनों पक्षगण की आपसी सहमति से निर्णय लेकर किया जायेगा।

राजेश्वर सिंह

21/11/20

21/11/20

3. यह कि साझा व्यापार का आरंभ निबंधन की तिथि से उपर्युक्त वर्णित व्यापार के उद्देश्य के लिए होगा।
4. यह कि साझेदारी फर्म का मुख्यालय राधा कम्पलेक्स, खेलगांव चौक, दीपाटोली, थाना-सदर, जिला-राँची होगा या समय-समय पर पक्षकारों के बताये जगह पर होगा।
5. यह कि साझेदारी व्यापार चलाने के उद्देश्य से पूंजी एवं फण्ड एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी प्रथम पक्ष की होगी। दोनों पक्षगण जरूरत के अनुसार उक्त फर्म में रकम लगाने के लिए तत्पर रहेंगे ताकि व्यापार का संचालन सही तरीके से हो।
6. यह कि साझेदारी फर्म का कुल लाभांश या हानि जो सभी तरह के व्यय-जैसे वेतन, किराया, स्थापना खर्च, मजदूरी, आदि जो साझेदारी के खण्ड में वर्णित है तथा जो व्यापार से संबंधित होगा, को घटाने के बाद दोनों पक्षगण के बीच बराबर-बराबर विभाजित किया जायेगा।
7. यह कि फर्म के नाम से एक साझा एकाउंट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा, जिसका संचालन दोनों पक्षकार के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।
8. यह कि फर्म का रजिस्टर, बही-खाता वगैरह ऐसे स्थान पर रखा जायेगा, जिसे कोई भी साझेदार जब भी अवलोकन करना चाहे तो आसानी से उपलब्ध हो सके।
9. यह कि फर्म में कार्य करने हेतु नौकर, चपरासी, क्लर्क तथा अन्य स्टाफ बहाल करने हेतु सभी पक्षकारों का आपसी विचार विमर्श आवश्यक होगा।
10. यह कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को फर्म का वार्षिक लेखा-जोखा लिखित रूप में किया जायेगा तथा इसी के आधार पर इनकम-टैक्स रिटर्न आदि भी भरा जायेगा। फर्म के शुद्ध लाभ यानि फर्म को सुचारू रूप से चलाने के

सविनया शिरा

28/7/16

23/8/16

लिए आवश्यक रकम, कुल खर्च आदि को घटाकर शेष रकम आपस में बराबर-बराबर बांट सकते हैं।

11. यह कि दोनों साझेदार किसी भी सरकारी कार्यालय यथा कोर्ट, बैंक, राजस्व कार्यालयों, आय कर कार्यालय अथवा अन्य किसी भी सरकारी कार्यालय में फर्म से संबंधित किसी भी तरह का कार्य करने के लिए अधिकृत होंगे।
12. यह कि दोनों पक्ष में से कोई भी साझेदार रकम जमा/ निकासी/खर्च संबंधित रसीद कार्यालय में जमा करने के लिए बाध्य होंगे तथा उक्त रसीद को चढ़ाये जाने के लिए भी उक्त साझेदार जिम्मेदार होंगे।
13. यह कि दोनों साझेदारों की आपसी सहमति से इस साझेदारी विलेख के शर्तों में आवश्यक संशोधन अर्थात् नये शर्त जोड़ा जा सकता है तथा पुराने शर्तों को काटा भी जा सकता है।
14. यह कि कोई भी साझेदार फर्म से यदि सेवानिवृत्ति चाहते हैं/अथवा उनका असामयिक निधन हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में तत्काल फर्म का लेखा-जोखा किया जायेगा, तथा उसमें जो भी रकम उनके हिस्से का होगा वह सेवानिवृत्ति के समय उन्हें दी जायेगी, परन्तु यदि उनके स्थान पर उनका पुत्र अथवा अन्य रिश्तेदार साझेदार बनना चाहें तो वे फर्म के नाम से आवेदन करेंगे और वे स्वतः उक्त फर्म के साझेदार हो जायेंगे।
15. यदि कोई भी साझेदार फर्म के अन्य साझेदार से असहमत/अविश्वास प्रकट करता है, तो ऐसी अवस्था में सभी साझेदार मिलकर अपना एक कानूनी सलाहकार नियुक्त करेंगे तथा उनका निर्णय/सुझाव सभी साझेदारों को मान्य होगा।
16. यह कि सभी साझेदार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 (समय-समय पर संशोधित) के तहत इस साझेदारी विलेख के शर्तों के अनुसार अनुपालन/प्रबंधन/विघटन इत्यादि कार्य किया जायेगा।

श्री

श्री

8/7/16

श्री

आज यह सभी पक्षकार इस साझेदारी विलेख को पढ़कर वो समझ-बुझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष अपने-अपने दस्तखत कर संपन्न कर दिए ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

आज दिनांक 28 जुलाई 2016 ई0 स्थान राँची।

गवाह:-

1. अमिषक आनंद
S/O श्री चतुर्धर सिंह
29 बंगला चौक डिपार्टमेंट
भाग-खदक राँची
2. श्री केशव
S/O Late Ganga Prasad
Ganga Prasad
Ranchi

28/7/16

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

(Handwritten signature)
28/7/16

अंगुठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा


द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

प्रतिष्ठा सिंह

28/7/16


अंगुठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

ड्राफ्टकर्ता का हस्ताक्षर



टंकक-एक्स ह.वि. रवीन्द्र कुमार मिश्रा
Rabindra Kumar Mishra
Ex-Officio Hav. Clerk
No. 5346/174M

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनकी छाया चित्र दस्तावेज में लगा है, के बायें हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा मेरे सामने लिया गया है।



4850


IV-605



झारखण्ड, JHARKHAND

B 960105

सर्वसज्जनों को विदित हो कि मैं श्रीमती मनिषा सिंघ पति-श्री गुप्तेश्वर सिंह, जाति-राजपुत, पेशा-व्यापार, निवास स्थान ग्राम-गाड़ी, निकट खेलगांव मोड़, थाना-सदर, जिला-राँची, झारखण्ड, भारतीय नागरिक।



15.7.16

सामान्य प्रतिनिधि-पत्र (जेनरल पावर ऑफ एटोर्नी)

सर्वसज्जनों को विदित हो कि मैं श्रीमती मनिषा सिंघ पति-श्री गुप्तेश्वर सिंह, जाति-राजपुत, पेशा-व्यापार, निवास स्थान ग्राम-गाड़ी, निकट खेलगांव मोड़, थाना-सदर, जिला-राँची, झारखण्ड, भारतीय नागरिक।

विदित हो कि मेरी जमीन जिसका मैं निर्विवाद मालकीन हूँ जिसका खाता नं०-101, प्लॉट नं०-1701 एवं 1702, सब प्लॉट नं०-1701/बी एवं 1702/बी, रकवा-1 डीसमील एवं 16 डीसमील कुल रकवा-17 डीसमील जमीन जो मौजा-बुटी, थाना-सदर, थाना

मनिषा सिंघ
15/7/16

सदर
मनिषा
श्रीमती
गुप्तेश्वर सिंह

नं०-182, जिला-राँची में स्थित है जिसे सिड्यूल II में दर्शाया गया है तथा उक्त भू-सम्पति में **पिताम्बर इन्कलेव** नामक बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण राँची नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शा जिसका बी.सी. केस नं०-BPO2/2015/13(1155/2014A) है। उक्त भवन में 20 फ्लैट, कार पार्किंग स्थल के साथ है जिसे सिड्यूल I में दर्शाया गया है।

यह कि मैं अपने कार्य में वयस्त रहने के कारण उक्त जमीन एवं उस पर निर्मित **पिताम्बर इन्कलेव** के फ्लैटों का देखभाल करने एवं उक्त फ्लैटों के खरीददार या खरीददारों को सिड्यूल I एवं II का बिक्री पट्टा उनके पक्ष में निबंधित करने में असमर्थ हूँ एवं मैं अपने उपरोक्त सम्पति का निष्पादन करने हेतु अपने पति **श्री गुप्तेश्वर सिंह** आधार सं०-2636 2075 4607 पिता-स्व० बलीराज सिंह, जाति-राजपुत, पेशा-व्यापार, निवासी-दीपाटोली, खेलगांव मोड़, थाना-सदर, जिला-राँची, झारखण्ड को अपना सच्चा, वैध एवं विधियुक्त मुख्तार मनोनीत एवं नियुक्त करती हूँ जो मेरे उपरोक्त सम्पति सिड्यूल I एवं II को बिक्री एवं निबंधन हेतु प्रस्तुत करेंगे जिसे मेरे द्वारा किया गया माना एवं समझा जाएगा।

विदित हो कि मेरे द्वारा नियुक्त **श्री. गुप्तेश्वर सिंह** पिता-स्व० बलीराज सिंह मेरे सच्चे, वैध एवं विधियुक्त मुख्तार है जो मेरे लिए मेरे तरफ से मेरे सम्पति सिड्यूल I एवं II का बिक्री, हस्तान्तरण एवं सपुर्दगी संबंधी दस्तावेज का निष्पादन अपने हस्ताक्षर से करेंगे तथा निबंधन पदाधिकारी राँची के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त सम्पति के लिए जो सही एवं अच्छा समझें तथ निम्नलिखित कार्यों के लिए समस्त अधिकार प्राप्त हैं:-

1. यह कि मेरे मुख्तार इच्छुक खरीददार/खरीददारों से बिक्री के लिए जो शर्त समझौता और पद्धति जो ठीक समझेंगे उसके अनुसार एकरार करेंगे और बिक्री के लिए सहमत होंगे और सक्षम होंगे।
2. यह कि मुख्तार को प्राधिकृत किया जाता है कि वे उक्त भू-सम्पति एवं फ्लैटों का बिक्री कार पार्किंग स्थल सहित बिक्री, हस्तान्तरण और सपुर्दगी संबंधी दस्तावेज का निष्पादन अपने हस्ताक्षर से करेंगे और सक्षम निबंधन पदाधिकारी के समक्ष उन्हें

समिप्या सिंह
15/7/16

उपस्थित कर अपना निष्पादन स्वीकार करेंगे और निबंधन संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे ताकि उक्त भू-सम्पति/फ्लैट बिक्री नियमानुकूल पूर्ण हो और खरीददारों को विधि सम्मत अधिकार प्राप्त हो।

3. यह कि उक्त सम्पति से संबंधित शपथ पत्र यदि आवश्यकता होगी करेंगे तथा अन्य प्रकार का घोषणा पत्र आदि जब और जहाँ अनिवार्य होगा वहाँ मेरे मुख्तार स्वयं हस्ताक्षर करेंगे।
4. यह कि यदि उक्त सम्पति के संबंध में कोई विवाद या केस दायर हो या करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में मेरे मुख्तार अधिवक्ता नियुक्त कर उचित पैरवी करेंगे, बयान तहरीर करेंगे तथा अन्य आवश्यक केस संबंधी कार्य करने में सक्षम रहेंगे।
5. यह कि उक्त सम्पति के संबंध में आवश्यकता परिपूरक पत्र अथवा सुधार पत्र निष्पादित कर निबंधित करने के लिए सक्षम रहेंगे ताकि बिक्री संबंधी त्रुटि दूर हो और बिक्री कानूनी सम्पदा हो तथा ऐसे कुल कामकाज और कार्यवाही मेरे मेरे द्वारा किया गया माना एवं समझा जायेगा।
6. यह कि मेरे मुख्तार आवश्यकतानुसार बिक्री अनुमति प्राप्त करेंगे और बिक्री अनुमति प्राप्त होने के बाद मेरे नियुक्त मुख्तार निम्नलिखित जमीन एवं फ्लैटों को ग्राहकों के नाम से बिक्री पत्र निबंधित एवं निष्पादित कर देंगे जिससे की ग्राहक को जमीन एवं फ्लैट का जायज मालिकाना हक, अधिकार प्राप्त हो सके।

मालिका बिल्ड
15/7/16

सिड्यूल-I

कुल 20 फ्लैट पिताम्बर इन्कलेभ स्थित कार पार्किंग स्थल, अनुपातिक अविभाजित भूमि में हिस्से के साथ एवं सभी सामान्य सुविधा के साथ।

क्रम सं.	फ्लैट नं०	तल्ला	रकवा (सुपर बिल्ट अप)
1	101-A	प्रथम	1235 वर्गफीट
2	102-B	प्रथम	1245 वर्गफीट
3	103-C	प्रथम	930 वर्गफीट
4	104-D	प्रथम	1060 वर्गफीट
5	105-E	प्रथम	1265 वर्गफीट

6	201-A	द्वितीय	1235 वर्गफीट
7	202-B	द्वितीय	1245 वर्गफीट
8	203-C	द्वितीय	930 वर्गफीट
9	204-D	द्वितीय	1060 वर्गफीट
10	205-E	द्वितीय	1065 वर्गफीट
11	301-A	तृतीय	1235 वर्गफीट
12	302-B	तृतीय	1245 वर्गफीट
13	303-C	तृतीय	930 वर्गफीट
14	304-D	तृतीय	1060 वर्गफीट
15	305-E	तृतीय	1265 वर्गफीट
16	401-A	चौथा	1235 वर्गफीट
17	402-B	चौथा	1245 वर्गफीट
18	403-C	चौथा	930 वर्गफीट
19	404-D	चौथा	1060 वर्गफीट
20	405-E	चौथा	1265 वर्गफीट

15/11/11

सन्ध्या सिंह
15/11/11

सिड्यल-II

भू-सम्पति का विवरण

मवाजी रकवा-17 डीसमील जमीन वाके मौजा-बुटी, थाना-सदर, थाना नं०-182, वार्ड नं०-5, जिला-राँची (मध्ये अनुपातिक अविभाजित रकवा)

खाता नं०	प्लॉट नं०	सब प्लॉट नं०	रकवा
101	1701	1701/बी	1 डीसमील
101	1702	1702/बी	16 डीसमील
		कुल रकवा	17 डीसमील

चौहद्दी

उत्तर :- श्रुति श्रीवास्तव प्लॉट नं०-1701 एवं 1702/ए
दक्षिण :- मोहरंगीया महतो
पूरब :- दयमन्ती सिंह प्लॉट नं०-1701 एवं 1702/सी
पश्चिम :- ग्रामीण रास्ता

अतः मैं अपने-अपने तन-मन की स्वस्थ एवं शुद्ध अवस्था में रहकर बिना किसी अनुचित प्रभाव में आये वो अपने सुख वो सुविधा के मद्दे नजर रखते हुए उपरोक्त जमीन/प्लैट को मुख्तार के नाम मुख्तारनामा पत्र लिखकर, पढ़ वो पढ़वाकर सुन वो समझ लिए और ठीक-ठीक लिखा पाकर अपना सही ठेपा निशान बना दिए कि समय पर काम आवे।


गवाह

1. आशिष आनंद
S/O श्री चंद्रमणि सिंह
अपना गाँव चौक, डिपार्ली
आगा - सहर रांची 15/11/16

2. हितेंद्र कुमार सिंह
जिता :- श्री चन्द्रमणि सिंह
गाँव लेखन -
आगा - सहर रांची
15/11/16

प्रधान का हस्ताक्षर


मनिषा सिंह
15/11/16



मनोनीत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर



अशोक
15/11/16



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी का फोटो इस दस्तावेज में लगा है के बाये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा मेरे सामने लिया गया है।

मजमूनकर्ता :-

टाइपकर्ता :-

Prakash
15/11/16



L.N. 13/2013
दस्तावेज नकोव, रांची

Document No 14
Document Type
Presenter Name & Address
Stampable Doc. Value
Document Value
Special Type
Remarks / Other Details

Sale Deed
S.N Ganguli Road Ranchi
3150500
3150500
Sp=1701,1702/B

Presenter
DOE
Stamp Value 126100
Serial No.

Satyendra Kumar Jalan
Date of Entry 18/04/2012
Total Pages 24
Book 1
CNO/PNO

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
Ranchi Shahar	182	5	Booty/ Booty basti	101	1701	RSP		MR_RES	1 Decimal	185309
Ranchi Shahar	182	5	Booty/ Booty basti	101	1702	RSP		MR_RES	16 Decimal	2964944

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	Address
1	VENDOR	Satyendra Kumar Jalan	Murari Lal Jalan	Business	Other	Acjpi8188m	S.N Ganguli Road Ranchi
2	VENDOR	Umesh Kumar Kamdar	Late Om Prakash Kamdar	Business	Other	Abtpk2054l	Booty Road Bariatu Ranchi
3	VENDEE	Manisha Singh	Gupteshwar Singh	H.Wife	Other	Aqsps9720m	Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi
4	Identifier	Surendra Kumar Gupta	Jagdish Prasad	Business	Other	Not Req	Booty More Sadar Ranchi

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	A1	94,515.00
2	SP	360.00
3	LL	2.50
4	PR	0.94
Total		94,878.44

सिद्धे-5 आरि जातान
18/04/2012

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

निबंधन पूर्व सारांश में इंपट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर
आरि इंद्रि अमेश का हस्ताक्षर
18/04/12

उपर्युक्त (सत्येंद्र कुमार जातान) उमेश कुमार कामदार ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी पहचान निवासी सिद्धे-5 आरि जातान पिता श्री उमेश कुमार कामदार पेशा व्यापार ने की।

निबंधन पदाधिकरी का हस्ताक्षर
18/04/12

सिद्धे-5 आरि जातान

18/04/2012

Umesh Kumar Kamdar
18/04/12

Surendra Kumar Jalan



निबंधन विभाग, झारखंड
रांची
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token Date/Time: 28/07/2016 13:25:33

Partnership	Presenter	Gupteshwar Singh
Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi	Date of Entry	28/07/2016
0	DOE	Total Pages
0	Stamp Value	500
	Serial /Deed	/
	No.	
	Old Serial No.	/
	App. ID	
	e-Stamp Cert.	No.

Chal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No	Category	Area	Min. Value
------	--------	---------	-------	---------	---------	-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	------	----------	------	------------

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F 60	UID	Mobile	Pres. Address	Perm. Address
FIRST PARTY	Gupteshwar Singh	Late Baliraj Singh	Business	पिता		Male	NOT REQ		0000000000	Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi	Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi
Party	Manisha Singh	Gupteshwar Singh	H Wife	पति		Female	NOT REQ			Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi	Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi
Identifier	Abhishek Anand	Chaturbhuj Singh	Business	पिता		Male	NOT REQ			Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi	Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi

Description	Amount	CHC	Net Amount
DD	2,000.00	20.00	2,020.00
SP	360.00	0.00	360.00
	2,360.00	20.00	2,380.00

Gupteshwar Singh

कटियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

पुनः पूर्व सारांश में इंफ़ॉर्मेशन फॉर्म के अनुरूप डाटा इंट्री की गई है।

दस्तावेज के प्रेषक का हस्ताक्षर
Gupteshwar Singh


परचुतकर्ता का हस्ताक्षर
Manisha Singh
डाटा इंट्री ऑफ़िसर का हस्ताक्षर

ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष

① *Gupteshwar Singh*
② *Manisha Singh*
किया

Abhishek Anand
पिता *Chaturbhuj Singh*
पेशा *Business*

Gupteshwar Singh









अभिषेक ११/७/१६



निबंधन विभाग, झारखंड
रांची

No. 74 Token Date: 28/07/2016 13:25:33
Deed No./Year :5623/660/2016
Type: Partnership

Party Details	Photo	Thumb
Gupteshwar Singh Father/Husband Name:Late Baliraj Singh (FIRST PARTY) Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi		
Manisha Singh Father/Husband Name:Gupteshwar Singh (Party) Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi		
Abhishek Anand Father/Husband Name:Chaturbhuj Singh (Identifier) Gari Near Khelgaon More Sadar Ranchi		

Book No. IV
Volume 45
Page 267 To 290
Deed No 5623/660
Year 2016
Date 28/07/2016 15:09:55

Registering Officer

Signature of Operator